



## \*प्रेसनोट / सराहनीय कार्य\*

\*(पत्रांक-225/2022 दिनांक 14.08.2021)\*

\*दिनांक- 14.08.2021 को 14-August-2022 जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

हत्या की घटना का सफल अनावरण, घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल, स्कार्पियो मय एक अदद आलाकल्ल लोहे का चाकू, एक अदद हेलमेट व अन्य सामन के साथ हत्यारोपी गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री कुन्दन सिंह के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.08.2022 को थाना कोतवाली पडरौना व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा कठकुइया रोड पर रेलवे ढाला के पास से दिनांक 10.08.22 को थाना क्षेत्रान्तर्गत जगदीशपुरम कालोनी में हुयी हत्या का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये एक नफर अभियुक्त कुलदीप सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल व एक अदद स्कार्पियो वाहन, एक अदद आलाकल्ल लोहे का चाकू, एक अदद हेलमेट व एक-एक अदद खूनालूद कुर्ता-पैजामा व गमछा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा श्री प्रतीक सिंह की बहन प्रगति सिंह की दोस्ती एक कुलदीप नामक व्यक्ति से हो गयी कुलदीप मिलिट्री में JCO के पद पर दिल्ली में ही कार्यरत है। इसके पहले कुलदीप सिंह वह गोरखपुर में मिलिट्री कैम्प में नियुक्त था। वादी मुकदमा श्री प्रतीक सिंह के पिता श्री रमेश सिंह भी मिलिट्री से रिटायर जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था तब वादी के पिताजी गोरखपुर आर्मी हास्पिटल में दवा इलाज हेतु जाते थे उसी दौरान गोरखपुर आर्मी हास्पिटल में कुलदीप व वादी मुकदमा के पिता से दोस्ती के रूप में मित्रता हो गयी और कुलदीप इसी सम्बन्ध के चलते इनके घर पर आना जाना शुरू कर दिया था और वादी की बहन प्रगति सिंह से बातचीत करते हुए प्रेम सम्बन्ध हो गया। इस प्रकार कुलदीप वादी के घर बराबर आने जाने लगा। वर्ष 2021 में CBI द्वारा आर्मी भर्ती में हुए घोटाले को लेकर FIR NO. RC-DAI-2021-A-0013 /2021 U/S 120B IPC व 7,7A,8 व 12 PC ACT 1988 CBI ACB NEW DELHI कुलदीप व प्रगति सिंह के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। कुलदीप व प्रगति सिंह के प्रेम सम्बन्ध की जानकारी वादी मुकदमा की माँ संगीता देवी को हुयी तो वादी माँ ने कुलदीप सिंह को अपने घर आने मना करते हुए प्रेम सम्बन्ध का विरोध करने लगी तथा अपनी लड़की प्रगति सिंह की कही और शादी करने के लिए रिश्ता देखने लगी। जिसकी जानकारी कुलदीप सिंह को हुयी तो कुलदीप द्वारा प्रगति सिंह की शादी कही और हो जाने के

डर से तथा शादी के बाद प्रगति सिंह कही उसके खिलाफ CBI केस में सरकारी गवाह न बन जाये। इसी डर से वह प्रगति सिंह से शादी करने तथा उसकी शादी को रोकने के लिए साजिश कर अभियुक्त कुलदीप द्वारा दिनांक 10.08.22 को साजिश के तहत वादी मुकदमा की माँ संगीता देवी की हत्या कर दिया।

#### गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

कुलदीप सिंह पुत्र वेदप्रकाश सिंह निवासी सलोटी थाना पलवल जनपद पलवल हरियाणा

#### आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 400/22 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर।
2. FIR NO. RC-DAI-2021-A-0013 /2021 U/S 120B IPC व 7,7A,8 व 12 PC ACT 1988 CBI ACB NEW DELHI

#### बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद मोटरसाईकिल सुपर स्पेलेन्डर नं0 UP 64 F 9037
2. स्कार्पियो काले रंग नं0 HR 30 W 2815
3. एक अदद आलाकत्ल लोहे का चाकू
4. एक अदद हेलमेट
5. एक-एक अदद खूनालूद कुर्ता-पैजामा व गमछा बरामद

#### गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री राजप्रकाश सिंह थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
2. प्रभारी स्वाट श्री अमित शर्मा स्वाट टीम ज नपद कुशीनगर
3. व0उ0नि0 श्री अनिल कुमार सिंह को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
4. उ0नि0 श्री प्रभात कुमार यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
5. उ0नि0 श्री मुबारक अली खान स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
6. हे0का0 अखिलेश यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
7. का0 रणजीत सिंह थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
8. का0 नरेन्द्र यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
9. का0 चन्द्रमा विन्द थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
10. का0 चन्द्रशेखर स्वाट टीम कुशीनगर
11. का0 रणजीत यादव स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
12. का0 सचिन कुमार स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
13. का0 संदीप भास्कर स्वाट टीम जनपद कुशीनगर

14. का0 शिवानन्द सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर

15. का0 आतिश कुमार सर्विलांस सेल कुशीनगर

**\*जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-\***

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा नफर 44 अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

**\*कार्यवाही एक नजर में =\***

1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-0, ई-चालान-32 वाहन।

2.107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-46, व्यक्ति-128

3.वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(कुल-01)

4.जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-45)

**\*सोशल मीडिया सेल\***

**\*जनपद कुशीनगर\***

